

खंड 26

DeKalb काउंटी स्कूल डिस्ट्रिक्ट परिवार को नमस्कार,

सबसे पहले तो मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने स्टेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट संबोधन में भाग लिया या स्ट्रीम किया। DeKalb काउंटी स्कूल डिस्ट्रिक्ट (DCSD) की अधीक्षक के तौर पर सेवा करने पर मैं विनम्र और आभारी महसूस करती हूँ, लेकिन यह ज़िम्मेदारी मैं अकेले नहीं उठा सकती हूँ। इस महान स्कूल डिस्ट्रिक्ट और आगे और ऊपर की दिशा में ले जाने में आपका समर्थन हमारे लिए मददगार है।

डिस्ट्रिक्ट को पुनःआरंभ योजना के चरण दो और चरण तीन में जाता देख मैं बहुत उत्साहित हूँ। इन चरणों में, विद्यार्थियों का समूहीकरण स्कूल में उपस्थित होने के लिए अपनी पसंद के आधार पर हाइब्रिड, व्यक्तिगत अध्ययन में भाग लेगा। पूर्व-किंडरगार्टन, किंडरगार्टन, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, छठी कक्षा और नौवीं कक्षा के विद्यार्थी मंगलवार, 9 मार्च, 2021 से व्यक्तिगत अध्ययन शुरू करेंगे। तीसरी, चौथी, पाँचवीं, सातवीं, आठवीं, 10वीं, 11वीं, और 12वीं कक्षा के विद्यार्थी चरण तीन के दौरान सोमवार, 15 मार्च, 2021 से शुरू करेंगे।

डिस्ट्रिक्ट रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (CDC) द्वारा अनुशंसित शमन रणनीतियों को लागू करेगा, जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि हमारे विद्यार्थी, शिक्षक और स्टाफ सदस्य भवन में सुरक्षित हों। DCSD को इस प्रकार से सुरक्षित रखा जा रहा है।

जिन परिवारों ने कक्षाओं में वापस लौटने का विकल्प चुना है मैं उन विद्यार्थियों की प्रतीक्षा कर रही हूँ! आमने-सामने के अध्ययन में वापस लौटने पर अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं। हम अध्ययन की दूरस्थ व्यवस्था को लगातार मजबूत बनाने के प्रति भी समर्पित हैं।

स्टेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट संबोधन देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। स्टेट ऑफ रीजन संबोधन भी डिस्ट्रिक्ट के YouTube पेज पर उपलब्ध है।

नए कार्यक्रम

आमने-सामने की अध्ययन व्यवस्था में वापस लौटने और वर्चुअल व्यवस्था के दौरान प्राप्त सफलताओं का जश्न मनाते हुए, हमें अपने कुछ विद्यार्थियों को महामारी से हुई परेशानियों को ध्यान में रखना चाहिए। आगे बढ़ते हुए ज़रूरत पड़ने पर उपाय करने की योजना हमारे पास है। अध्ययन में हानि की पूर्ति के लिए, DCSD “बुधवार को अध्ययन” का आयोजन करेगा और दिलचस्प नए ग्रीष्म अकादमिक और संवर्धन कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा।

DCSD स्टाफ की प्रभावशीलता को भी वरीयता देगा, और हमारे विद्यार्थियों के लिए उच्चतम गुणवत्ता वाला स्टाफ नौकरी पर रखेगा और उसका प्रतिधारण करेगा। डिस्ट्रिक्ट विकलांग विद्यार्थियों, मेधावी विद्यार्थियों और अंग्रेज़ी के विद्यार्थियों को समर्थन देने के लिए शिक्षकों और लीडरों के लिए पेशेवर विकास के अवसरों में बढ़ोतरी करेगा।

हम सफलता की राह में आने वाली बाधाओं को हटाते रहेंगे जिससे कि हमारे विद्यार्थी उत्कृष्ट प्रदर्शन जारी रखें!

COVID-19 टीका

गवर्नर Brian Kemp द्वारा हाल ही में शिक्षकों के लिए COVID-19 टीकों की गई घोषणा से DCSD उत्साहित है। टीकों की पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध होने पर कर्मचारियों को टीके लगाने की रणनीति पर डिस्ट्रिक्ट DeKalb शिक्षा बोर्ड के साथ निकट से सहयोग कर रहा है। कर्मचारियों को अपने मुख्य चिकित्सक के पास टीके की उपलब्धता जांचने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है।

मार्च माइंडफुलनेस

मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि डिस्ट्रिक्ट मार्च माह के दौरान कर्मचारियों के लिए "मार्च माइंडफुलनेस" पेश करने जा रहा है। 30 मिनट की अवधि वाले इन सत्रों में तनाव को प्रबंधित करने, मन को शांत करने और थकान घटाने के लिए सबूत आधारित उपकरणों के उपयोग पर ध्यान दिया जाएगा। इन सत्रों में संगीत और गतिविधि के ज़रिए भी मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जाएगा।

इन सत्रों में प्रति सत्र 150-200 प्रतिभागी शामिल किए जाएंगे, और कर्मचारी यदि चाहें तो वे कई सत्रों के लिए नामांकन करा सकते हैं। ये सत्र मोमेंट ऑफ माइंडफुलनेस के संस्थापक Mr. Curtis Smith द्वारा आयोजित किया जाएगा। ये सत्र Mr. Smith द्वारा प्रदान ZOOM लिंक के ज़रिए आयोजित किए जाएंगे।

हमारे कर्मचारियों के लिए इस पहल पर कड़ी मेहनत करने के लिए मैं अंतरिम उप-अधीक्षक Dr. Deborah Moore-Sanders और उनके स्टाफ का धन्यवाद करती हूँ।

असाधारण बच्चे सप्ताह

DCSD अगले सप्ताह असाधारण बच्चे सप्ताह का आयोजन करने जा रहा है। हमारी विरासत के प्रति प्रतिबद्धता की समीक्षा के दौरान सभी को याद रखना चाहिए कि हमारे असाधारण विद्यार्थियों को बेहतरीन प्रदर्शन के लिए आवश्यक परिवेष्टन सेवाएँ प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता डिस्ट्रिक्ट की शीर्ष वरीयता है। हमारे असाधारण विद्यार्थियों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम के लिए सोशल मीडिया पर हमें फॉलो करें।

मैं आशा करती हूँ कि हम अपने विद्यार्थियों को उनके अकादमिक और जीवन लक्ष्य हासिल कराने में हर संभव मदद कराने के लिए "एक DeKalb" के रूप में साथ मिल कर कार्य करते रहेंगे।

भवदीय,

Mrs. Cheryl Watson-Harris